



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 225]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

संख्या 15/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 272(ब).—** जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सोलर मॉड्यूल “इथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए)” शीट (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 और 3921 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2019 के तहत दिनांक 21 फरवरी, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

“चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड से होने वाले फालतू आयात को और ऐसे फालतू आयात के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए ऐसे आयात पर शुल्क का लगाया जाना जरूरी हो गया है। हालांकि, यह पाया गया है कि दक्षिण कोरिया से इस जांच अवधि के दौरान किया गया आयात मामूली स्तर से भी कम है अतः नियम 14(घ) के अनुसार दक्षिण कोरिया के खिलाफ किसी जांच का परित्याग कर देना उचित है।”

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन उप शीर्षकों के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो

कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं और भारत में आयातित हैं, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा और माप इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

### सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादक और/या निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	3901 30	सोलर मॉड्यूल इथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगझाओ बैटर सैन्चुरी फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	537	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
2.	3920 10		चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स हांगझाओ फर्स्ट एप्लाइड मेटीरियल कंपनी लिमिटेड/मैसर्स सुझो फर्स्ट पीवी मेटीरियल कंपनी लिमिटेड	665	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
3.	3920 62		चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगझाओ स्वेक पीवी न्यू मेटीरियल कंपनी लिमिटेड	590	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
4.	3920 99		चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	897	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
5.	3921 90		सऊदी अरब	मैसर्स सऊदी स्पेशलाइस्ड प्रोडक्ट्स कंपनी	1338	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
6.			सऊदी अरब	कोई भी	1559	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
7.			थाईलैंड	मैसर्स टीपीआई ऑल सीजन्स कंपनी लिमिटेड	1141	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
8.			थाईलैंड	कोई भी	1529	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
9.			मलेशिया	कोई भी	953	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनियम दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनियम दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/50/2019-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप-सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

## No. 15 /2019-Customs (ADD)

**G.S.R. 272 (E).**—Whereas, in the matter of import of ‘Ethylene Vinyl Acetate (EVA)’ Sheet for Solar Module (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the sub-headings 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 and 3921 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR, Malaysia, Saudi Arabia, and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/9/2018-DGAD, dated the 21<sup>st</sup> February, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21<sup>st</sup> February, 2019, has come to the conclusion that-

“Imposition of duty is required to offset dumping and injury caused by dumped imports from China PR, Malaysia, Saudi Arabia, and Thailand. However, having found that the volume of imports from South Korea was below de-minimus level during the POI it is appropriate to terminate the investigation against South Korea in terms of Rule 14(d).”

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (6), in the currency and per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table:-

TABLE

S. No	Sub-headings	Description of Goods	Country of Origin and/or Export	Producer	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	3901 30 3920 10	Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module	China PR	M/s Changzhou Bbetter Century film Technologies Co. Ltd.	537	USD/MT
2.	3920 62 3920 99 3921 90		China PR	M/s Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. / M/s Suzhou First PV Material Co., Ltd	665	USD/MT
3.			China PR	M/s Changzhou Sveck PV New Material Co. Ltd.	590	USD/MT
4.			China PR	Any	897	USD/MT
5.			Saudi Arabia	M/s Saudi Specialized Products Company.	1338	USD/MT
6.			Saudi Arabia	Any	1559	USD/MT

7.			Thailand	M/s TPI all seasons Co. Ltd.	1141	USD/MT
8.			Thailand	Any	1529	USD/MT
9.			Malaysia	Any	953	USD/MT

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.-* For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/50/2019 –TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.